



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 689 राँची, रविवार

29 भाद्र, 1937 (श०)

20 सितम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्या-4/नि०सं०-12-56/2015 का० 7833--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (द्वितीय बैच) के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट इस शर्त के साथ किया जाता है कि इनकी सम्पुष्टि इनके नियुक्ति की जाँच में सरकार के अंतिम निर्णय अथवा एतद्विषयक वाद में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय से प्रभावित होगी:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/पदनाम	बैच	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5

1	श्रीमती पूनम कुजूर, राँची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धालभूमगढ, जमशेदपुर	द्वितीय बैच	01.09.2008	11.09.2010
2	श्री प्रेम कुमार तिवारी, राँची अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, धनबाद	द्वितीय बैच	01.09.2008	01.09.2010
3	श्री गुलाम समदानी, बोकारो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमसाड़ी, हजारीबाग	द्वितीय बैच	01.09.2008	01.09.2010
4	श्री महेश्वर महतो, राँची अंचल अधिकारी, डुमरिया,	द्वितीय बैच	01.09.2008	11.09.2010
5	श्री जयवर्द्धन कुमार सुपोल (बिहार) अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा	द्वितीय बैच	01.09.2008	01.09.2010

6	श्री सुरेन्द्र कुमार, हजारीबाग अंचल अधिकारी, काठीकुंड, दुमका	द्वितीय बैच	01.09.2008	11.09.2010
7	श्रीमती मोनिका रानी टूटी, खूँटी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़	द्वितीय बैच	01.09.2008	11.09.2010

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुमन कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।
